

# MP Board Solutions for Class 10th: Ch 1 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण प्रश्नोत्तर विज्ञान

---

## प्रश्न




पृष्ठ संख्या - 6

1. वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है?




## उत्तर

मैग्नीशियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। संग्रहित करते समय, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ताकि इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड कि एक परत बन सके। मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत स्थायी होती है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की अधिक अभिक्रिया को रोकती है। मैग्नीशियम रिबन कि इसी परत को हटाने के लिए इसे रेत कागज से साफ़ किया जाता है जिससे कि अंतर्निहित धातु को वायु के संपर्क में लाया जा सके।

2. निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए।



## उत्तर




3. निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए:

(i) जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघूलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं।

(ii) सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन (जल में) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन (जल में) से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं।

## उत्तर





### पृष्ठ संख्या - 6

1. किसी पदार्थ 'X' के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है।


(i) पदार्थ 'X' का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए।

(ii) ऊपर (i) में लिखे पदार्थ 'X' की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए।

### उत्तर

(i) पदार्थ 'X' का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है और इसका सूत्र  $\text{CaO}$  है।

(ii) कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने (कैल्शियम हाइड्रोक्साइड) का निर्माण करता है।



2. क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए।

### उत्तर

जल में दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन है। इसलिए जल के विद्युत् अपघटन के दौरान एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे परखनली उत्पादित गैस की मात्रा से दोगुनी है। यह गैस हाइड्रोजन है।


### पृष्ठ संख्या - 15

1. जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है?

### उत्तर


जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब लोहे (आयरन) ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विद्युत्यापित कर देता है। इस प्रकार कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग बदल जाता है।

यहाँ निम्नलिखित अभिक्रिया होती है:





1. क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए।

### उत्तर



2. निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए:




## उत्तर

- (i) सोडियम का उपचयन या ऑक्सीकरण होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तथा ऑक्सीजन को कम करता है।  
(ii) कॉपर ऑक्साइड ( $\text{CuO}$ ) में ऑक्सीजन का हास हो रहा है इसलिए यह अपचयित हुआ है तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए यह उपचयित हुआ है।

पृष्ठ संख्या 16

## अभ्यास


1. नीचे दी गई अभिक्रिया के सम्बन्ध में कौन-सा कथन असत्य है?



- (a) सीसा अपचयित हो रहा है।  
(b) कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है।  
(c) कार्बन उपचयित हो रहा है।  
(d) लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है।
- (i) (a) एवं (b)  
(ii) (a) एवं (c)  
(iii) (a), (b) एवं (c)  
(iv) सभी

## उत्तर

(i) (a) एवं (b)



ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है?

- (a) संयोजन अभिक्रिया  
(b) द्विविस्थापन अभिक्रिया  
(c) वियोजन अभिक्रिया  
(d) विस्थापन अभिक्रिया

## उत्तर

(d) विस्थापन अभिक्रिया

3. लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए।

- (a) हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है।  
(b) क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है।  
(c) कोई अभिक्रिया नहीं होती है।  
(d) आयरन लवण एवं जल बनता है।

## उत्तर

(a) हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है।

4. संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है?

### उत्तर

एक संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है।

द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है।

5. निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए।




(a) नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है।

(b) हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है।




(c) एलुमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एलुमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है।

(d) पोटैशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटैशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है।




### उत्तर



6. निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए:



### उत्तर







7. निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए:

(a) कैल्शियम हाइड्रोक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड → कैल्शियम कार्बोनेट + जल


(b) जिंक + सिल्वर नाइट्रेट → जिंक नाइट्रेट + सिल्वर

- (c) एलुमिनियम + कॉपर क्लोराइड  $\rightarrow$  एलुमिनियम क्लोराइड + कॉपर  
 (d) बेरियम क्लोराइड + पोटैशियम सल्फेट  $\rightarrow$  बेरियम सल्फेट + पोटैशियम क्लोराइड



## उत्तर



8. निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं अभिक्रिया का प्रकार बताइए।




## उत्तर



9. ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए।

## उत्तर

जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ कहते हैं।





जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ कहते हैं।  
 जैसे-

10. ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए।

## उत्तर

श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे बड़ी मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है।




11. वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए।

### उत्तर

वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं।

उदाहरण: वियोजन अभिक्रिया:

संयोजन अभिक्रिया-




(चूना पत्थर) (बुझा हुआ चूना)

12. उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक-

एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के ढंप में ऊर्जा प्रदान की जाती है।

### उत्तर



13. विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए।



(चूना पत्थर) (बुझा हुआ चूना)

### उत्तर



जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक

से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया होती है।


जैसे-  $\text{CuSO}_4(\text{aq}) + \text{Zn}(\text{s}) \rightarrow \text{ZnSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s})$

द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग-अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह (आयन) का आपस में आदान-प्रदान होता है।

जैसे-  $\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + \text{BaCl}_2(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s}) + 2\text{NaCl}(\text{aq})$

14. सिल्वर के थोड़न में, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए।

### उत्तर



सिल्वर नाइट्रेट + कॉपर → कॉपर नाइट्रेट + सिल्वर

15. अवक्षेपण अभिक्रिया से आप समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए।

### उत्तर

ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।


जैसे-  $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq}) + \text{CaCl}_2(\text{aq}) \rightarrow \text{CaCO}_3(\text{s}) + 2\text{NaCl}(\text{aq})$

16. ऑक्सीजन के योग या हास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो उदाहरण दीजिए।


(a) उपचयन      (b) अपचयन

## उत्तर

उपचयन अभिक्रिया- जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का हास होता है उपचयन कहलाता है।



यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है।



अपचयन अभिक्रिया- जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का हास या हाइड्रोजन का योग होता है, अपचयन कहलाता है।

कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर कॉपर बन जाता है।

यहाँ जिंक ऑक्साइड से अपचयित होकर जिंक प्राप्त होता है।



17. एक भूरे रंग का चमकदार तत्व 'X' को वायु कि

उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व

'X' एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए।



## उत्तर

भूरे रंग का तत्व 'X' कॉपर है जिस पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। कॉपर को गर्म करने पर निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है:

(भूरे रंग का तत्व) (काले रंग का)

18. लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं?



## उत्तर

लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है क्योंकि यह उनमें जंग लगने से रोकता है। पेंट करने पर नमी और वायु से लोहे का संपर्क ठूंठ जाता है और इस प्रकार जंग नहीं लगता है।

19. तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थोंकी नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है?

## उत्तर


खाद्य सामग्रियोंको संग्रहित करने वाले थेलियोंमें से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि उनका उपचयन न हो सके।

20. निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक-एक उदाहरण दीजिए:

(a) संक्षारण (b) विकृतगंधिता

## उत्तर

संक्षारण- जब कोई धातु अपने आस-पास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चाँदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं।



विकृतगंधिता- वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तो उसमें प्रयुक्त तेल और वसा उपचयित होकर विकृतगंधी हो जाते हैं। जैसे- मक्खन को लंबे समय तक खुला छोड़ने पर उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है।